



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 2018/आषाढ़ 12, 1940

No. 251]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 2018/ASHADHA 12, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2018

**सं.भा.आ.प.34(41)/2018—मेड/119358.—**भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102)

की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से “मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999” को पुनः संशोधित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) ये विनियम “मेडिकल कालेज की स्थापना विनियमावली (संशोधन), 2018” कहे जाएंगे।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. “मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999” में “अर्हक मापदंड” शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(2) में प्रथम परंतुक निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“.....बशर्ते कि भारत सरकार द्वारा की गई भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार 25 (पच्चीस) लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरी समूहों/नगरों नामतः दिल्ली, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, ग्रेटर मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बंगलौर, चैन्नई और राज्यों की राजधानियों/संघ शासित क्षेत्रों में, अनुमत एफएआर/एफएसआई, मेडिकल कालेजों को अनुमति देने का मापदंड होगा परंतु यह कि न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली के अनुसार अपेक्षित मेडिकल कालेज, अस्पताल, छात्रावासों, आवासीय क्वार्टरों और अन्य अवसंरचना सहित पर्याप्त अवसंरचना हेतु अपेक्षित कुल निर्मित क्षेत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत, अनुमेय, एफएआर/एफएसआई के आधार पर कम से कम 10 एकड़ का क्षेत्र उपलब्ध कराया जाए।

[विज्ञापन-III/4/असा./126/18]

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

**पाद टिप्पणी:** प्रधान विनियामवली नामतः “मेडिकल कॉलेज की स्थापना नियमावली, 1999” भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना संख्या 34(41)/98—मेड के अंतर्गत 28 अगस्त, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग—III, खंड(4) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 22/10/1999, 01/08/2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 13/11/2009, 02/02/2010, 26/02/2010, 16/04/2010, 14/10/2011, 04/06/2012, 01/10/2012, 19/03/2014, 22/08/2014, 19/10/2015, 14/01/2016, 08/02/2016, 18/03/2016, 17/01/2017 और 01/06/2017 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

## MEDICAL COUNCIL OF INDIA AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2018

**No. MCI 34(41)/2018-Med./119358.**—In exercise of the powers conferred by Section 10A read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the “Establishment of Medical College Regulations, 1999” namely:-

1. (i) These Regulations may be called the “Establishment of Medical College Regulations, (Amendment) 2018”.  
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Establishment of Medical College Regulations, 1999”, in Clause 2(2) under the heading “QUALIFYING CRITERIA”, the first proviso shall be substituted as under:

“.....Provided that in urban agglomerations/cities having population of 25 (twenty five) lakhs or more, namely, Delhi, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Kolkata, Ahmedabad, Surat, Greater Mumbai, Pune, Hyderabad, Bangalore and Chennai according to the Census of India, 2011 conducted by Government of India and **capitals of States / UTs**, the permissible FAR/FSI shall be the criterion for allowing the medical colleges provided that the total built up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital, hostels, residential quarters and other infrastructure required as per Minimum Standard Requirement Regulations is made available in an area of not less than 10 acres based upon the permissible FAR/FSI allowed by the competent authority....

[ADVT.-III/4/Exty./126/18]

Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c

**Foot Note:** The Principal Regulations namely, “Establishment of Medical College Regulations, 1999, were published in Part—III, Section 4 of the Gazette of India on the 28th August, 1999, *vide* Medical Council of India notification No. 34(41)/98-Med. and amended *vide* notification dated 22/10/99, 01/08/2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 13/11/2009, 02/02/2010, 26/02/2010, 16/04/2010, 14/10/2011, 04/06/2012, 01/10/2012, 19/03/2014, 22/08/2014, 19/10/2015, 14/01/2016, 08/02/2016, 18/03/2016, 17/01/2017 & 01/06/2017.